Regd. Off. & Works: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar-125 001, INDIA Ph.: 01662-276178 Mobile: 98120-20111/40111/40222 Fax: 01662-276145 E-Mail: arceeind@rediffmail.com CIN: L29120HR1992PLC031681

August 28, 2024

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 520121

Sub: Advertisement- Completion of Dispatch of Notice of the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting & For Book Closure

Dear Sir / Madam,

We enclose in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the copy of newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notice of the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting to the eligible shareholders.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For: ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Srishti by Srishti Date: 2024.08.28 15:39:29 +05'30'

(SRISHTI)

**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER** 

### FINANCIAL EXPRESS

der all or any of the provisions of t including taking possession and ny other action or relief as may be

13(13) of SARFAESI Act, 2002, the sferring or alienating either by way sset, in any manner, whatsoever, in an Agreements and/or SARFAESI

ey should not deal, in any manner, asset as HFCL has the First and

SD/-, AUTHORIZED OFFICER, HERO FINCORP LIMITED

Chennai - 600002

roperty)

e Securitisation and Reconstruction of erred under section 13(12) read with entioned Borrowers to repay the total since the below mentioned Borrowers

mentioned borrowers and the public powers conferred on him under Sub-Borrowers in particular and the public the properties will be subject to the wer's attention is invited to provisions

	Demand Notice Date and Amount	Date of Possession
arlas 3 ict Jind		

la i.e 2 15-05-2024 ring 28 for the 22/08/2024 Rs. 187619/utation lest by e Sub

roperty

khewe as East Kumar 15-05-2024 District ered at 22/08/2024 Rs. d vide 1294872/-

107'6" Raibala ated at arlas 3

ict Jind which is la i.e 2 03-02-2022 iring 28 22/08/2024 for the Rs.569616/utation Vest by

uitas Small Finance Bank Ltd

### **S LIMITED**

ng Road No. 44, Pitampura,

1@gmail.com

### TING

of the Company will be held /Other Audio Visual Means 2020, Circular No.17/2020 ar No. 09/2023 dated 25th CMD1/CIR/P/2020/79 dated h May, and General Circular 2/CIR/P/2022/62 dated 13th 2023 and Circular No SEBI/ allowed to hold AGM through

enue. Hence the AGM of the

Holding

Vihar 2nd Floor Vikas Marg Delhi -110092 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.panindiacorp.com under Investor Relation tab. as well as RTA's website i.e. https://nivis.co.in/under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id info@nivis.co.in under copy marked to company at srgltd@gmail.com

Please contact your DP and register your email address and bank account details as per the process advised by DP. Holding

#### E-voting Information:

Place: New Delhi Date: 27.08.2024

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.panindiacorp.com

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on Company's website www.panindiacorp.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company.

For Pan India Corporation Limited

Vijay Pal Shukla Managing Directo

#### ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana) Email: arceeind@rediffmail.com; Tel.: 98120-40111, 98120-40222 CIN: L29120HR1992PLC031681

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 32ND Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 30th September 2024 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary Business as set out in the notice of the 32nd AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2023-The Company has completed the displaction of the Protice of Action and the Annual Report for 2024. Electronic copies have been sent to all the members whose email 1D art registered with the Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email itis are not registered with the Company/Depository Participants. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2023-24 are available at the following websites www.arceeindustries.in and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting rate as underof the remote e-voting are as under:-

- 1. Date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2024 (9:00 a.m.)
- 2. Date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2024 (5:00 p.m.)
- 3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2024 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date i.e., 23rd September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
- A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:

Sh. Narendra Dev, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Milis Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company at arceeind@rediffmail.com or Company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Arcee Industries Limited

Place: Hisar (Haryana) Date: August 27, 2024

(Shruti Gupta)
Whole Time Director
DIN - 01742368

### NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED

(CIN: L74899DL1995PLC066194)

Regd. Office: 218 – 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi – 110034,

Email id: cs@neerajpaper.com; Website: www.neerajpaper.com: Tel.: +91 11 47527700; Fax - +91 11 47527777

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29<sup>th</sup>Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Friday, 27<sup>th</sup> September 2024 at 41.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBIHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 12/2022, dated 05th May, and General Circular No. 11/2022 dated 28<sup>th</sup> with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, and General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022, and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/

Proprietor Yadhuveer Singh R Karhal Dist. Mainpuri (U.P.)- 2 Singh (Proprietor) S/o Arjun S Nagla Dansingh Takhrau, D 205268, Arjun Singh (Guaranto Dayal R/o Tarvarau, Nagla B Mainpuri UP-205268, Barjor Parmeshwar Dayal R/o Ahinsa C Mainpuri UP-205264, Par (Guarantor) S/o Ganga Deen R Takhrau, Dist Mainpuri UP-2052 Date-28.08.2024

M/s Dinesh & Brothers



Ref: DEL/CRD/SAI

E-Auction Sale Notice Assets and Enforcer Interest (Enforcement

1.M/s Alternative Le Limited, 1st and Aggarwal Auto N Place, District Ce Bagh, New Delhi – 1

19, ALS House, Complex, Mukherje Delhi-110009 Notice is hereby give below described imr

(Secured Creditor), Indian Bank Limited is" condition on the (Rupees Twenty Fou 31.07.2024, with futu Karol Bagh (Secured

Name of Property O

Description of prope

Name of Property C

Description of prop



DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identity Number: L24219HR1985PLC122802 Registered Office & Correspondence Address: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana, India Tel: +91 124 434 5000 | Website: www.dhanuka.com | Email: investors@dhanuka.com Contact Person: Jitin Sadana, Company Secretary and Compliance Officer

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Public Announcement and the Letter of Offer, unless otherwise specified. Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer, unless otherwise defined.

The Equity Shareholders / Beneficial Owners of the equity shares of Dhanuka Agritech Limited are requested to note the amendments with respect to and in connection with the Public Announcement published on August 06, 2024 and the Letter of Offer dated August 20, 2024 as sent to the shareholders as under:

Annexure A of Statutory Auditor's report dated August 02, 2024 (UDIN: 24528799BKDIEC8259) in respect of proposed buy back of equity shares by Dhanuka Agritech Limited (the "Company") as per Clause (xi) of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buy Back Regulations") in the Public Announcement and on Page 45-46 of the Letter of Offer shall be read as follows:

Annexure A:

Statement of permissible capital payment towards buy back of equity shares in accordance with section 68 of the Act and the Buy Back Regulations based on the audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2024 prepared in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder:

Particulars	Standalone (₹ in lakhs)	Consolidated (₹ in lakhs)
Paid up equity share capital as on March 31, 2024 (4,55,78,324 equity shares of face value ₹ 2 each)	911.57	911.57
Free reserves as on March 31, 2024*		
- Retained Earnings	1,24,491.72	1,24,490.72
<ul> <li>Less: Adjustments as per definition of free reserves as per section 2(43) of the Act (Net of Tax)</li> </ul>	(961.62)	(961.62)
Total paid up capital and free reserves	1,24,441.67	1,24,440.67
Permissible capital payment in accordance with section 68(2)(b) of the Act (25% of the total paid-up Equity Share capital and free reserves)	31,110.42	31,110.17
10% of the total paid up equity share capital and free reserves, if the buyback is carried through tender offer route (in accordance with the Chapter III of the Buyback Regulations and proviso to Section 68(2)(b) of the Act)	12,444.17	12,444.07
Maximum amount permitted by Board Resolution dated August 02, 2024 approving the Buyback, based on the audited financial statements for the year ended March 31, 2024	10,00	0.00
*Free reserves as defined in Section 2(43) of the Act read along with Evolunation II o	rovided in Section	68 of the Act

\*Free reserves as defined in Section 2(43) of the Act read along with Explanation II provided in Section 68 of the Act, as

All other terms and conditions of Public Announcement and Letter of Offer remain unchanged.

The Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Public Announcement and Letter of Offer confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of **Dhanuka Agritech Limited** 

Mahendra Kumar Dhanuka

Chairman (DIN: 00628039)

Rahul Dhanuka Managing Director (DIN: 00150140)

Jitin Sadana Company Secretary and Compliance Officer (FCS-7612)

Place: Gurugram

Dated: August 27, 2024

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)



#### INVENTURE GROWTH AND SECURITIES LIMITED Corporate Identification Number: L65990MH1995PLC089838

Inventure Growth and Securities Limited was originally incorporated on June 22, 1995, as a Public limited company, under the name and style 'Inventure Growth

and Securities Limited' under the provisions of the Companies Act. 1956, with the Registrar of Companies, Mumbai, We received Certificate of Commencement of Business dated June 22, 1995 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. The Company made a maiden public offer of its Equity Capital in July 2011 The Equity capital of the Company is listed on BSE and NSE in India. Registered Office: 201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark, Western Express Highway, Andheri - East, Mumbai - 400069, Maharashtra, India

Tel: +91 - 22-71148500/600; Website: www.inventuregrowth.com; E-mail: cs@inventuregrowth.com Contact Person: Ms. Shikha Ashok Mishra, Company Secretary and Compliance Officer

## **OUR PROMOTERS: MR. KANJI BACHUBHAI RITA**

ISSUE OF UP TO 21,00,00,000- EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASHAT A PRICE OF ₹ 2.33/-PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 1.33 PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 4893.00 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 4 FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 05TH JULY, 2024. THE ISSUE PRICE IS 2.33TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

# **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of Inventure Growth and Securities Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on MONDAY, JULY 15, 2024 and closed on TUESDAY, AUGUST 13, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024. Out of the total 9,737 Applications for 24,47,13,775 Rights Equity Shares, 884 Applications for 51,05,719 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 8,853 for 23,96,08,056 Rights Equity Shares, which was 114.10 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Rights issue was subscribed to the extent of 114.10% after technical rejections.

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, August 20, 2024 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 21, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 21,00,00,000 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted			
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Non Renouncees	9497	97.54%	132163634	307941267.22	54.01%	127057915	296044941.95	60.50%
Renouncees	240	2.46%	112550141	262241828.53	45.99%	82942085	193255058.05	39.50%
Total	9737	100.00%	244713775	570183095.75	100.00%	210000000	489300000.00	100.00%

2. Summary of Allotment is as under:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and Allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and Allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	Number	Number	Number	
Non Renouncees	8673	77005527	50052388	127057915	
Renouncees	240	3414248	79527837	82942085	
Total	8913	80419775	129580225	21000000	

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, was sent on their email address on or about August 26, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about August 27, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on August 20, 2024. The Listing application was filed with BSE and NSE on August 26, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable is completed on or about

August 27, 2024. For further details, see "Terms of the Issue" on page 153 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE878H01024 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Friday, August 30, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and NSE. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE.

## DISCLAIMER CLAUSE OF NSE

Registrar to the Issue

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the NSE. Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated June 25, 2024 filed

with the BSE, NSE and the Securities and Exchange Board of India.

**Company Secretary and Compliance Officer** 

<b>LINK</b> Intime	INVENTURE GROWTH & SECURITIES LED.
Link Intime India Private Limited	Shikha Ashok Mishra
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083,	201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark, Western Express Highway,
Maharashtra, India.	Andheri - East, Mumbai - 400069, India
<b>Tel No:</b> + 91 810 811 4949;	E-mail: cs@inventuregrowth.com
Email: inventure.rights2023@linkintime.co.in	<b>Tel</b> : +91 - 22-71148500/600
Website: www.linkintime.co.in;	Website: www.inventuregrowth.com
SEBI Registration Number: INR000004058	
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan	

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Date : August 28, 2024 Place : Mumbai

For Inventure Growth & Securities Limited

Mr. Kanji Bachubhai Rita

**Executive Director-Chairperson-MD** 

# Disclaimer:

Inventure Growth and Securities Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and NSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.inventuregrowth.com. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीत-II, नई दिल्ली के समक्ष

(धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनसरण में) पनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-54 / एनेडी / 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और भन्य लाग् प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझीता व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के मामले मे

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में ब्लू जे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड डिमर्ज्ड कंपनी / आवेदक कंपनी-1)

परिणामी कंपनी—1 / आवेदक कंपनी—2) स्टाइड वन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड परिणामी कंपनी-2/आवेदक कंपनी-3)

चनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार

संक्षिप्तता के लिए, आवेदक कंपनी–1, आवेदक

स्ट्राइड फिनट्री प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी-2 और आवेदक कंपनी-3 इसके बाद सामृहिक रूप से "आवेदक कंपनी" के रूप में संदर्भित) मैसर्स स्ट्राइड वन कैंपिटल प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') के असुरिक्षत लेनदारों की बैठक की सुचना का विज्ञापन तदद्वारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-2 नई दिल्ली ("अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 23 अगस्त 2024 ("आदेश") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित शेयरघारकों एवं लेनदारों के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए कंपनी के असुरक्षित लेनदारों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया हैं। उपरोक्त कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे तददारा सचित किया जाता है कि कंपनी के असरिशत नेनदारों की एक बैठक शनियार, 28 सिलम्बर, 2024 को दोपहर : 12.00 बजे ब्लॉक ३ए, भूतल, डीएलएफ कार्पोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी, फेज-3, एमजी रोड, गुरूग्राम, हरियाणा-122002 में आयोजित की जाएगी

माननीय अधिकरण ने उपरोक्त कथित बैठक के लिए माननीय न्यायाधीश श्री सुनील गौर, पूर्व जज दिल्ली उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, श्री अनिले कमार मितल को वैकल्पिक अध्यक्ष एवं सुन्नी मनमीत कौर सरीन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त कथित बैठक में अनुमोदित की जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन

जिसमें कंपनी के असुरिक्षत लेनदारों से निर्धारित समय

एवं स्थान पर जपस्थित होने एवं बोट देने का अनरोध

केया जाता है।

उपरोक्त बैठक के स्पष्टीकरण विवरण और उसके अन्य अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ सचना दिनांक 26.08.2024 को ई-मेल के मध्यम से 05 फेरवरी 2024 (कट-ऑफ तिथि के रूप में) तक कंपनी के असुरिव्यत लेनदार कंपनी के असुरिक्षत लेनदारों को भेज दी गई हैं। इसके अंलाया, अस्रिक्षत लेनदारी, जिनके नाम कट—ऑफ

तिथि अर्थात 05 फरवरी 2024 को कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं केवल वे ही उपरोक्त बैठक में भाग लेने और वोट देने के डकदार होंगे। असुरिक्षत लेनदारों के वोटिंग अधिकार 05 फरवरी 2024 को कंपनी की बड़ियों मे दर्ज मूल्य के अनुपात में होंगे।

कंपनी के असुरिक्षत लेनदारों जो उपरोक्त बैठक में भाग लेने और वोटों देने के इकदार हैं, वे व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या अधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से वोट दे सकते हैं बशतें कि निर्धारित फॉर्म / प्राधिकार पत्र में सभी प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ई13/29, प्रथम तल, हर्ष भवन, कर्नोट प्लेस, नः दिल्ली-110001 पर उपरोक्त बैठक शुरू होने व निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा किए जाएं। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपरोक्त बैठक बलाने की सचना की प्रति अधिनियम की गरा 102 के साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत व्याख्यात्मक विवरण और उसके अन्य अपेक्षित अनुलम्नकों के साध कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से शिल्क प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त बैठक के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत

हे मामले में संबंधित अस्रिक्षत लेनदार कंपनी के नेदेशक औ इसप्रीत गद्दी से ई- मेन compliance@strideone.in पर संपर्क कर सकते हैं।

नाक : 28.08.2024

निवेशक दीआईएन : 08319385

इशप्रीत गांधी

स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

पंजी कार्यालयः गांव-सोमलहेड़ी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली (पं.)-140506, टेलीफोन: +91-172-2793112,

फैक्स: +91-172-2794834

51वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी

तथा किताब बंदी की सचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:-

अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव सोमलहेड़ी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली (पंजाब) में सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित होना अधिसचित है।

2. 51वीं एजीएम (सचना) की सचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटस के साथ पंजीकृत है। भेजने का कार्य 23 अगस्त, 2024 को पूरा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.ssilindia.net पर भी उपलब्ध है।

सुचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

अर्थात 23 सितंबर, 2024 को शेयरधारक है वो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकत है वो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वर्तमान यजर आइडी तथा पासवर्ड का पयोग कर सकता है।

जाने की स्थित में, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट को अंतिम विचारा जाएगा। सदस्यों को सचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 9.00 बजे

शुरू होगी तथा 29 सितंबर, 2024 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। (ख) दिनांक 29 सितंबर, 2024 को सायं 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी पृछताछ की स्थिति में सदस्य फ्रीक्वेटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्यवल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल से ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com टेली. 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागु नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कते स्टील स्टिप्स इंफ्रास्टक्चर्स लिमिटेड संजय गर्ग.

दिनांक: 27.08.2024 स्थानः चंडीगढ़ ( डीआईएन-00030956 )

ई-मेस आईडी: arceeind@rediffmail.com फोन नंo.: 98120-40111, 98120-40222 सीआईएन: L29120HR1992PLC031681

**32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई-मतदान** 

निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी। कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा युकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईटी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते

पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.arceeindustries.in और http://www.ing.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिमोट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, वजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है। कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम

2015 के विभिन्न 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एअंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है।

रिमोट ई—मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 29 सितंबर, 2024 (साय 5.00 बजे)

रजिस्टर / लागार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है। वह व्यक्ति जो बैठक की जानकारी मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और

कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, वह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसटीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिगोट ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट

रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन बैठक

रिमोट ई-मतदान से संबंधित किसी पृथ्वतांछ हेतू. सदस्य/लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित पर्त पर संपर्क कर सकते हैं।

श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल शिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिगिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, arcsend@redffmal.com पर या कंपनी के पंजीकत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतदद्वारा स्थित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेवर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। कृते आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : डिसार (इरियाणा) विनांकः २७ अगस्त, २०२४

www.readwirere.com

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ—II, नई दिल्ली के समक्ष

(धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुसरण में) हेयनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-54 / एनंडी / 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लाग् प्रावधानों के साध पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में ब्लू जे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड डिमर्ज्ड कंपनी / आवेदक कंपनी-1)

स्ट्राइड फिनट्री प्राइवेट लिमिटेड परिणामी कंपनी-1/आवेदक कंपनी-2) स्ट्राइड वन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

(परिणामी कंपनी-2/आवेदक कंपनी-3)

उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार संक्षिप्तता के लिए आवेदक कंपनी-1, आवेदन हंपनी−2 और आवेदक कंपनी−3 इसके बाद सामृहिक रूप से "आवेदक कंपनी" के रूप में संदर्भित मैससे स्टाइड फिनटी प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') के सीरीज ए2 अनिवार्यतः कवर्टिबल प्रीफरेंस ("सीरीज ए2

सीसीपीएस") शेयरधारकों की बैठक की सुधना का विज्ञापन तदद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-2 नई दिल्ली ('अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 23 अगस्त 2024 ('आदेश') वं माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवेदक कंपनिये और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना शोधन उसे अनुमोदित करने के लिए कंपनी के सीरीज १2 सीसीपीएस धारकों की एक बैठक बलाने का निर्देश

तपरोक्त कथित आदेश एवं निर्देश के अनसरण में आर् तदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपेंगी के सीरीज 2 सीसीपीएस धारकों की एक बैठक शनिवार 28 प्ततम्बर, 2024 को प्रात : 11.00 बजे ब्लॉक ३ए भूतल, डीएलएफ कार्पोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी ज-3. एमजी रोड. गरसग्राम, हरियाणा—122002 मे गयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के सीरीज ए2 सीसीपीएस धारकों से निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने एवं वोट देने का अनुरोध किया जाता है। माननीय अधिकरण ने उपरोक्त कथित बैठक के लिए ाननीय न्यायाधीश श्री सुनील गौर, पूर्व जज दिल्ली उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, श्री अनिर्ल कमार मित्तल को वैकल्पिक आध्यक्ष एवं सुश्री मनमीत कौँर सरीन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त कथित बैठक में अनुमोदित की जाती है तो यह गननीय अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन

उपरोक्त बैठक के स्पष्टीकरण विवरण और उसके अन्य अपेक्षित अनलग्नकों के साथ सचना दिनांक 26.08. 2024 को ई-मेल के माध्यम से 20 मई 2024 (कट-ऑफ तिथि के रूप में) तक कंपनी के सीरीज ए2 सीसीपीएस धारक कंपनी के सीरीज ए2 सीसीपीएस धारकों के भेज दी गई हैं।

इसके अलावा, सीरीज ए2 सीसीपीएस धारक जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 20 मई 2024 को कंपनी रिकॉर्ड में दर्ज है केवल वे ही उपरोक्त बैठक में भाग लेने और बोट देने के इकदार होंगे। सीरीज ए2 भीसीपीएस धारकों के वोटिंग अधिकार 20 मई 2024 को कंपनी की बहियों में दर्ज सीरीज ए2 सीसीपीएस मत्य के अनपात में होंगे।

कंपनी के सीरजी ए2 सीसीपीएस धारक जो उपरोत्त रैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार हैं, यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि है माध्यम से वीट दें सकते हैं बंशते कि निर्धारित र्मि / प्राधिकार पत्र में सभी प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ई13 / 29, प्रथम तल, हर्ष भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर उपरोक्त बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा किए ाएं। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त बैठक बुलाने की सुचना की प्रति अधिनियम की पारा 102 के सीध पठित धारा 230 से 232 के तहत व्याख्यात्मक विवरण और उसके अन्य अपेक्षित

निशिल्क प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त बैठक के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत मामले में सबवित सीरीज ए2 सीसीपीएस धारक कंपनी के निदेशक श्री इशप्रीत गांधी से ई-मेल compliance@strideone.in पर संपर्क कर सकते हैं। इराप्रीत गांधी

एनको के साथ कंपनी के पंजीकत कायोलय र

निदेशक

दिनांक : 28.08.2024

डीआईएनः 08319385

CIN: L27109PB1973PLC003232

ईमेलः ssl\_ssg@glide.net.in, वेबसाइटः www.ssilindia.net

कंपनी की 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक (51वीं एजीएम) सूचना दिनांक 13.08.2024 में तय

कट ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2024 को भौतिक विधि या डिमैटरिलाइज्ड रूप में शेयरधारक सदस्य

(सीडीएसएल) के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट इलैक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। दोनों विधियों द्वारा वोट डाले

प्रबंध निदेशक.

## आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी. कार्यातयः 7वां, के.एम बरवासा चोड, तसवंदी राना, हिसार–125001 (हरियाणा)

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आग बैठक (एजीएम)

सोमनार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 7वें के एम. बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार (हरियाणा) में 32वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय के

20, के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्ये) विनियमावली.

रिमोट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समय 27 सितंबर, 2024 (प्रात: 9.00 बजे)

रिमोट ई-मतदान की अनुमति 29 सितंबर, 2024 (साय 5.00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी के

ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में सपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान

में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे।

कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोजर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022 2499 4545 या टोल क्री न 1800-222-990. ई-मेल: evoling@nsdi.co.in | सदस्यगण कंपनी को ई-मेल: कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10

> हस्ता/-(भुवि मुप्या) डीआई एन--01742368

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड CIN: L74899DL1995PLC066194

कम्यूनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फोन रू +91 11 47527700, फैक्स - +91 11 47527777

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

रतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 29वीं वार्षिक साधारण बैठक, शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग /अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020, आगे जनरल सर्कूलर नंबर 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 तथा जनरल सर्कूलर नंबर 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और सर्कूलर नंबर 09 / 2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 द्वारा विस्तार के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से. किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना

29वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों को पृथकतः केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, यदि उसका ई—मेल पता डिपॉजिटरी ∕ रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट के पास पंजीकृत हैं। एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 29वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.neerajpaper.com/notices पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

उनसे अनुरोध है कि अपना केवाईसी अद्यतन करवाने के लिए कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित प्रपत्रों सिहत कम्पनी को cs@neerajpaper.com पर अथवा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. को beetalrta@gmail.com पर लिखें। जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक रूप में हैं उनसे भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में अद्यतन

ई—वोटिंग के संबंध में किसी पछताछ / शिकायत की स्थिति में. आप श्री पनीत मित्तल, जनरल मैनेजर, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. से beetalrta@gmail.com अथवा फोन नंबर 011 29961281 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री राकेश दाल्वी, सीनि. मैनेजर (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फयूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एन जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं अथवा 022-23058542 / 43 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार वास्ते नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड

दिनांक : 27**–**08–2024 स्थान : दिल्ली

(दीपा कुमारी) (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

# आर्कोटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाडी, हरियाणा 123501 वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेल: contact@arcotech.in दूरमाष: 0128-4264160

43वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और रिमोट ई—वोटिंग की सूचना

ाहारा सूचना दी जाती है कि परिपन्न सं 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 09 / 2023 और 7 अक्टूबर 2023 के साथ पठित कंपने र्राधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) वेनियम, 2015 मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (एमसीए परिपन्न(ऑ)) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न सं SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 11 जुलाई 2023 के अनुपाल में एजीएम की सूबना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए आकॉटेक लिमिटेड ("कंपनी") की 43वीं वार्षिक आन बैठक (एजीएम) वीडियो काफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विज्ञाल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बूधवार, 18 सितंबर, 2024 को पूर्वाहन 11:30 बजे आयोजित की

या कंपनी के पास मंजीकृत है। वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 27 अगरत, 2024 को पुरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपॉट और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.arcotech.in, और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com, और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोट की मौतिक प्रतिया मेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों के अनुसार जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है। आगे. सुथना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए रिकॉर्ड दिनांक बुधवार, 11 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है।

लेस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के अनुसार नियम 20 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन

अधिकार का प्रयोग कर सकें। रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं जिसे सदस्यों हो ईमेल किया जा रहा है शेयरघारकों को ई–वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने सीडीएसएल की सेवाएं ली है । इसके अलावा. एजीएम की सचना. जिसमें यजर आईडी और पासवर्ड के बारे में विवरण और ई—वोटिंग के निर्देश पहले ही सदस्यों जे जा चके हैं। ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म रविवार, 15 सितंबर, 2024 को सबह नौ बजे से मतदान के लिए खलेगा और मंगलवार सेतंबर 2024 को शाम पांच बजे बंद होगा। कंपनी के वे शेयरधारक जो. कट-ऑफ दिनांक यानी बुधवारे 11 सितंबर 2024 को गैतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयरधारण होगें। वे एजीएम होने वाले व्यवसाय के संबंध में अपना बोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और जीएम सूचना के प्रेशण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कंट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वा ndoldc@vahoo.com या helpdesk.evoting@cdslindia.com या सीडीएसएल पर 022- 23058738 या 022-23058542-43 संपर्क करके अपना यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालते हैं, वे वीखियों कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो—विजुअल साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ह सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में अपना वोट फिर से डालने के हकदार नहीं होंगें। सूचना में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए ई–वोटिंग के लिए

मौतिक शेयरधारकों के लिए-- कपया फोलियों नं... शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्केन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैर

हारा आरटीए को mdpldc@yahoo.com या कंपनी को secretarial@arcotech.in. पर प्रवान करें। डीमैट शेयरधारकों के लिए- कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नं. अपडेट करें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट (डीपी)

नेष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न या शिकायत को कंपनी को ईमेल आईडी secretarial@arcotech.in. पर संबोधित किया ज मकता है। मैसर्स सौरम अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग प्रक्रिया की

आर्कोटेक लिमिटेड के लिए हरताक्षर /-

(निधि जैन)

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 27 अगस्त. 2024

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II चंडीगढ़ 160102 फोन: ++91 172 2653807,5005024

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 13वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

'सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को करने के लिए मेगास्टार फूड्स लिमिटेड ('कंपनी') की 13वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमें ('ओएवीएम') के माध्यम से, आयोजित की जानी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सुचना का हिस्सा बनने वाले नोट्स में दिए गए हैं। एमसीए द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पठित 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (सामहिक रूप

वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनमति है। तदनसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से अपने उन सभी सदस्यों को भेजे हैं, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 27 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com और बीएसई

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं). विनियम 2015 ('सेबी सचीबद्धता विनियम') के विनियम 44. समय-समय पर संशोधित. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं, ताकि कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के

अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रारंभिक तिथि मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को 9:00 बजे पूर्वा. रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति तिथि गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 को 5:00 बजे अप.

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को उपरोक्त तिथि और समय के बाद अनुमित नहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए

ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए, जैसा भी मामला हो, लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है। जिन सदस्यों की ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है और जो समय–समय पर कंपनी द्वारा नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। हालांकि, डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी को लिखें।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual पुस्तिका देख सकते हैं या 180021 09911 पर कॉल कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सीडीएस से संपर्क

अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और स्थानांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी। कंपनी ने श्री अजय के. अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एम. नं. 2191 सी.पी. नं. 993) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग सहित ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। समेकित स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ एजीएम के ई–वोटिंग परिणाम वैधानिक समयसीमा के अनुसार घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट यानी www.megastarfoods.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी डाले जाएंगे।

कंपनी सचिव

Chandigarh

पंजीकृत कार्यालय-218-222, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, प्लॉट नं. 2, ईमेल आईडी: cs@neerajpaper.com ; वेबसाइट : www.neerajpaper.com

करने की अनुमति प्रदान की गई है।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और अपना ई–मेल पता तथा केवाईसी कम्पनी में अद्यतन नहीं करवाया है

अनुरोध है कि अपना ई—मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत/अद्यतन करवाएं। नहीं करवाया है. उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है।

CIN: L34300HR1981PLC012151

ताएगी । जिसमें सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी । सचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

नेयम, 2014 (संशोधित) के साथ पठित, कंपनी शेयरधारकों को एजीएम के दौरान रिमोर्ट ई—वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दैसन -बोटिंग प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने

ऑगिन केंडेशियल प्राप्त करने के लिए शेयरघारकों की प्रक्रिया. जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पजीकत नहीं हैं। सचना र (पैन कार्ड स्व-सल्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार (आधार की स्व-सल्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण ईमेल

व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए-- कुपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नं. अपडेट करें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्बुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

वर्क्स : कुरली-रोपड़ रोड, ग्राम सोलखियां-140108 जिला रूपनगर, पंजाब

टेलीफोन:+91 1881 240403-240406 वेबसाइट : www.megastarfoods.com; ईमेल: cs@megastarfoods.com रतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए'), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्रों सहित सेबी द्वारा जारी दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के एसईबीएल/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 ( सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना

लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट

एजीएम की तारीख से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के दौरान उपलब्ध होगी।

सीडीएसएल द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी शक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को दर्ज है, केवल एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम नोटिस को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पुंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर, रिमोट

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड के लिए

दीपाली छाबडा

स्थानः चंडीगढ पूर्णकालिक निर्वेशक दिनांक: 27.08.2024